



प्रेसनोट थाना सैंया जनपद आगरा ।

थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा जमीनी विवाद में मारपीट-फायरिंग करने वाले 08 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व अन्य सामान बरामद

दिनांक 24.07.2021 थाना दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम प्रधान दनकशा ने थाना सैंया पर सूचना दी कि गाँव झील के पुरा में प्रथम पार्टी कप्तान सिंह व द्वितीय पार्टी लाखन सिंह एवं परिवारीजनों में जमीन जोतने के ऊपर कहासुनी हो रही है तथा झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि दोनों पक्षों में खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है ।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ग्राम झील का पुरा पहुँची । जहाँ प्रथम पक्ष 1. कप्तान सिंह 2. चन्द्रभान 3. गंगा प्रसाद 4. राम मोहन उर्फ कृष्णा 5. रवि कुमार 6. विशाल 7. वीरेन्द्र सिंह व द्वितीय पार्टी 1. दीन दयाल 2. पंकज 3. थान सिंह 4. मनीष 5. घनश्याम 6. शेरा व 9-10 अज्ञात महिला व पुरुष आपस में लाठी डण्डों व ईट पत्थरों से एक दूसरे के साथ मारपीट व गाली गलौज कर रहे थे तथा एक दूसरे को जान से मारने की नियत फायरिंग कर रहे थे । पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त पक्षों को रोकने का प्रयास किया, परन्तु नहीं माने । पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मौके से प्रथम पक्ष के 06 व द्वितीय पक्ष के 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कप्तान के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया व अभियुक्त थान सिंह पुत्र लाखन सिंह मय तमंचा व अन्य मौके से फरार हो गये । अभियुक्तगण द्वारा कोरोना महामारी व जनपद में धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के उपरान्त एक राय होकर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच व फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना सैंया पर मु0अ0सं0 127/2021 धारा 147/148/149/34/307/323/504/336/188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट व मु0अ0सं0 128/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । पुलिस टीम द्वारा मौके से जमीन पर पड़े 02 खोखा कारतूस व जूते-चप्पल व ईट, पत्थर भी बरामद किये गये ।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. कप्तान सिंह पुत्र करन सिंह निवासी झील का पुरा थाना सैंया जनपद आगरा
2. चन्द्रभान पुत्र कप्तान सिंह निवासी झील का पुरा थाना सैंया जनपद आगरा ।
3. राम मोहन उर्फ कृष्णा पुत्र भागीरथ ठाकुर निवासी भाई थाना मलपुरा जनपद आगरा ।
4. रवि कुमार पुत्र मुकेश चन्द्र निवासी माकरौल थाना मलपुरा जनपद आगरा ।





5. विशाल पुत्र धन सिंह निवासी कोटली बगीची देवरी रोड़ थाना सदर बाजार जनपद आगरा ।
6. वीरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी कोटली बगीची देवरी रोड़ थाना सदर बाजार जनपद आगरा।
7. दीनदयाल पुत्र प्रीतम सिंह निवासी झील का पुरा थाना सैंया जनपद आगरा ।
8. पंकज पुत्र रामखिलाड़ी निवासी झील का पुरा थाना सैंया जनपद आगरा ।

➤ बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर ।
2. 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
4. पत्थर, जूते व चप्पल ।

➤ आपराधिक इतिहास:-

● अभियुक्त कमान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 127/2021 धारा 147/148/149/34/307/323/504/336/188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधिनियम व 7 आपराधिक कानून अधिनियम ।
2. मु0अ0सं0 128/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।

● अन्य अभियुक्तगण:-

1. मु0अ0सं0 127/2021 धारा 147/148/149/34/307/323/504/336/188/269/270 भादवि व 3/4 महामारी अधिनियम व 7 आपराधिक कानून अधिनियम

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हंसराज भदौरिया थाना सैंया जनपद आगरा ।
2. उ0नि0 श्री नेपाल सिंह थाना सैंया जनपद आगरा ।
3. है0कां0 रामराज थाना सैंया जनपद आगरा ।
4. है0कां0 राजीव कुमार थाना सैंया जनपद आगरा ।
5. है0कां0 वी0के0 सिंह थाना सैंया जनपद आगरा ।
6. कां0 रविकान्त थाना सैंया जनपद आगरा ।
7. कां0 अंकित कुमार थाना सैंया जनपद आगरा ।
8. कां0 सुनील पाल थाना सैंया जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा